





हाँ



शौचालय जाना हैं ?



बिजली चालू या बंद करें ?



बिस्तर को समायोजित करना चाहते हैं?




नहीं




पानी पीते हैं?



मूंह साफ करना




होंठों की क्रीम



सूखा मूंह



सांस फूलना



दवाइयाँ



गले में खराश




सांस लेने में कठिनाई




एलर्जी या खजली




खांसी




गर्मी लगना




मूंह से सक्शन



सरदर्द



ठंड लगना



गले से सक्शन




बीमार होना




असुखद लगना




ऑक्सीजन का उपयोग




0




1




2




3




4



5




6




7



8



9



10




थकाव महसूस करना



पता नहीं



हाँ




कोविड -19



सवाल




तुम ठीक हो ?



मैं कहाँ हूँ ?



परिवार का पता




धन्यवाद



परिवार

यहाँ नाम लिखो ।




फ़ोन



लिखना



प्रेम




याद आना




चिंता मत करो




मित्र



अलविदा



प्रार्थना



गर्व



मेहमान को
अनुमति नहीं है ।



घर




पालतू जानवर




बेचैन




डर



उदास



शांति



ठीक



नहीं

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ
औ	अं	अः	क	ख	ग	घ	च	छ	ज
झ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध
न	प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व
श	ष	स	ह		10	50	100	500	1000



पता नहीं